



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 20052024-254261
CG-DL-E-20052024-254261

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946

No. 259]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

सा.का.नि. 280(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, क्षेत्रीय चारा केंद्र (निदेशक) भर्ती नियम, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने से लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, क्षेत्रीय चारा केंद्र में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, क्षेत्रीय चारा केंद्र (निदेशक) भर्ती नियम, 2024 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
निदेशक	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 के वेतन मैट्रिक्स (67700-208700) में।
चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)	
चयन पद।	लागू नहीं।		लागू नहीं।
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं।	लागू नहीं।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।
(11)	(12)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>क्षेत्रीय चारा केंद्रों में स्तर-10 के वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपये) पर कार्यरत चारा कृषि विज्ञानी जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान से चारा विकास और बीज उत्पादन में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके लिए ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई सी सी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: -</p> <p>(i) सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य;</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य;</p> <p>(iv) संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य;</p> <p>(v) निदेशक अथवा उप सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य।</p>

अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर स्तर-10 (56100-1,77,500 रुपये) में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखने वाले, अर्थात:—

आवश्यक:—

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि विज्ञान या कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री;

(ii) किसी केन्द्रीय सरकार के संगठन या राज्य सरकार के संगठन या संघ राज्य क्षेत्र के संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में चारा उत्पादन में चारा खेती या अनुसंधान या विस्तार कार्य की योजना और संगठन में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री।

टिप्पण 1: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रोन्नति द्वारा विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी

भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. क्यू-14012/1/2019-प्रशा._6]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2024

G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Regional Fodder Stations (Director) Recruitment Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Regional Fodder Stations, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Regional Fodder Stations (Director) Recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification.—No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Director.	4* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.
Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)	
Selection post.	Not applicable.		Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/
--	------------------------------	--

recruits will apply in the case of promotees.		absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent by Promotion failing which by Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.
(11)	(12)
<p>Promotion:</p> <p>Fodder Agronomist in Regional Fodder Stations in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the fodder development and seed production from a recognised institute or from an institution of Indian Council of Agricultural Research as prescribed by the competent authority.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Universities or recognized research institutions or public sector undertakings or statutory organisation or autonomous bodies,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-10 (Rs. 56100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>Essential:-</p> <p>(i) Post graduate degree in Agronomy or in Agriculture with specialisation in Agronomy from a recognised University or institute;</p> <p>(ii) five years experience in planning and organisation of fodder farming or research or extension work in fodder production in any Central Government organisation or the State Government organisation or Union territory organisation or public sector undertaking or autonomous or statutory organisation or recognised university or research institute.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <p>(i) Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Chairperson;</p> <p>(ii) Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying – Member;</p> <p>(iii) Joint Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying – Member;</p> <p>(iv) Joint Commissioner or Deputy Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying – Member;</p> <p>(v) Director or Deputy Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying – Member.</p>

<p>Desirable:—</p> <p>Doctorate degree in Agronomy from a recognised University or institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications</p>	
---	--

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. Q-14012/1/2019-Admin_6]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.